

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 नवम्बर 2012—अग्रहायण 2, शक 1934

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास), जिला शाजापुर (मध्यप्रदेश)

शाजापुर, दिनांक 9 नवम्बर 2012

क्र. 528-जिशविअ-नप-परिसीमन प्रकाशन-2012.—नगरपालिका अधिनियम, 1961, क्रमांक 37 की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नगर परिषद्, पानखेड़ी (कालापिपल), जिला शाजापुर के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करती है :—

अनुसूची

वार्ड क्रमांक (1)	वार्ड का नाम (2)
1	महाराणा प्रताप वार्ड
2	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
3	शहीद सुभाषचन्द्र बोस वार्ड
4	सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड
5	रानी लक्ष्मीबाई वार्ड
6	रवीन्द्रनाथ टैगोर वार्ड
7	रानी दुर्गावती वार्ड

(1)	(2)
8	शहीद चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
9	शहीद सरदार भगतसिंह वार्ड
10	मौलाना आजाद वार्ड
11	लालबहादुर शास्त्री वार्ड
12	जवाहर लाल नेहरू वार्ड
13	महात्मागांधी वार्ड
14	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
15	स्वामी विवेकानंद वार्ड

प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर.

नवगठित नगर परिषद् पानखेड़ी (कालापीपल) प्रस्तावित वार्ड विभाजन वार्ड विस्तार सीमा

वार्ड क्रमांक 1—महाराणा प्रताप वार्ड

उत्तर—अनार बाई के मकान से लगा हुआ नाला पार करते हुए बाबा रामदेव के चबूतरे से होते हुए पेट्रोल पम्प के सामने कुरावर रोड पर स्थित मुकेश गर्ग की खुली भूमि तक.

दक्षिण—गैस एजेन्सी वाले चौराहे से होते हुए पानखेड़ी गोहा पुराना प्राथमिक शाला भवन के पीछे होते हुए खरंजा रोड होकर बट्टीसिंह के मकान तक.

पूर्व—शिवपुरीया पेट्रोल पम्प के सामने (मुकेश गर्ग की भूमि) से होते हुए कुरावर रोड पर नया भवन गैस एजेन्सी वाले चौराहे तक.

पश्चिम—अनारबाई के मकान से होते हुए बट्टीसिंह के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 2—डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड

उत्तर—नरबतसिंह के मकान से प्रारम्भ होकर सुरजसिंह के मकान तक.

दक्षिण—कृषि मण्डी वाली पुलिया से प्रारम्भ होकर मण्डी समिति के पीछे मदनसिंह के मकान से होते हुए जितेन्द्र शर्मा के मकान तक.

पूर्व—पानखेड़ी गोहा से मण्डी समिति रोड पुलिया के पास मामा की दुकान तक.

पश्चिम—जितेन्द्र शर्मा के मकान से सपेरा कालोनी के पीछे वाले मार्ग से पानखेड़ी नाला रमेश उदयसिंह सेन के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 3—सुभाषचन्द्र बोस वार्ड

उत्तर—रमेश भागीरथ के मकान से गैस एजेन्सी मुख्य मार्ग होते हुए शिवाजी संगठन से तहसील भवन के प्रांगण तक.

दक्षिण—तहसील प्रांगण स्टाम्प वेण्डर हरिप्रसाद परमार की दुकान से होते हुए मांगीलाल शर्मा की दुकान के सामने वाली रोड से होते हुए क्रिसमल पारदी के मकान तक.

पूर्व—गैस एजेन्सी चौराहा कुरावर रोड होते हुए तहसील के पास स्थित विद्युत् मण्डल की डी.पी. तक.

पश्चिम—मण्डी समिति रोड रमेश भागीरथ के मकान से क्रिसमल पारदी के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 4—सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड

उत्तर—प्रेम मेवाड़ा के मकान से जयनारायण राठौर के मकान तक.

दक्षिण—हनीश पारदी के मकान से प्राथमिक स्कूल होते हुए हनुमान मंदिर के सामने स्थित मुख्य मार्ग होकर कर्मचारी कालोनी बस स्टॉफ तक.

पूर्व—मांगीलाल टेलर के मकान से कुरावर रोड पर नूतन स्टूडियो वाले के मकान तक.

पश्चिम—प्रेम मेवाड़ा के मकान से मण्डी समिति रोड होते हुए हनीश पारदी के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 5—रानी लक्ष्मीबाई वार्ड

उत्तर—कर्मचारी कालोनी यात्री प्रतिकालय से हनुमान मंदिर लोहपीटा मोहन के मकान तक.

दक्षिण—मण्डी कालोनी के बीच स्थित पुलिया से शेरू चन्दर लोहपीटा के मकान के पीछे स्थित पुलिया तक.

पूर्व—कर्मचारी कालोनी यात्री प्रतिकालय से कुरावर रोड घनश्याम शर्मा के मकान के पास स्थित पुलिया तक.

पश्चिम—मोहन लोहपीटा के मकान से चन्दर शेरू लोहपीटा के मकान के पीछे स्थित पुलिया तक.

वार्ड क्रमांक 6—रवीन्द्रनाथ टैगोर वार्ड

उत्तर—धनसिंह मेवाड़ा के काम्पलेक्स से होते हुए कृषि मण्डी रोड पार कर गौशाला तक.

दक्षिण—रेल्वे क्रासिंग फाटक से महुआखेड़ी रोड होते हुए हनुमान मंदिर तक.

पूर्व—धनसिंह मेवाड़ा के काम्पलेक्स से पंचमुखी चौराहा होते हुए शुजालपुर रोड पर गांधी पेट्रोल पम्प होते हुए मांगीलाल प्रजापति के मकान तक.

पश्चिम—गौशाला से विकलांग कालोनी स्थित हनुमान मंदिर तक.

वार्ड क्रमांक 7—रानी दुर्गावती वार्ड

उत्तर—रेल्वे क्रासिंग फाटक से स्टेशन तक.

दक्षिण—पासीसर रोड जे. पी. जैन के मकान से छेगरा कालोनी तक.

पूर्व—रेल्वे स्टेशन प्रतिकालय से भरदी रोड के मोड़ तक.

पश्चिम—सोयाबीन प्लांट से शुजालपुर रोड पर जगदीश सोनी के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 8—चन्द्रशेखर आजाद वार्ड

उत्तर—हीरूलाल एवं सुरेश का मकान.

दक्षिण—रेल्वे विभाग की सीमा बाबू जायसवाल के मकान से ओम कक्का के मकान तक.

पूर्व—टपरा मोहल्ला का मुख्य मार्ग आशाबाई के मकान से बाबू जायसवाल के मकान तक.

पश्चिम—शुजालपुर रोड ओम कक्का के मकान से आशाबाई के मकान के पीछे स्थित खुली भूमि तक.

वार्ड क्रमांक 9—सरदार भगतसिंह वार्ड

उत्तर—नीना खोयरे का मकान

दक्षिण—रेल्वे विभाग की सीमा ठाबला वाले राजपूत के मकान से गौरीशंकर प्रजापति के मकान तक.

पूर्व—नीना खोयरे के मकान से पीछे वाले रोड से होते हुए दीपक टेलर के मकान से आगे की ओर पंचायत कार्यालय के सामने स्थित गौरीशंकर प्रजापति के मकान तक.

पश्चिम—टपरा मोहल्ले का मुख्य मार्ग नीना खोयरे के मकान से ठाबला वाले राजपूत के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 10—मौलाना आजाद वार्ड

उत्तर—देशी शराब की दुकान से बस स्टैण्ड रोड होते हुए छतरसिंह के मकान तक.

दक्षिण—नेहरू पार्क के सामने से दाल मील वाला रोड पठारिया मास्टर के मकान से सुन्दर राठौर के मकान तक.

पूर्व—पठारिया मास्टर के मकान के पीछे वाले रोड से दिलीप सोनी के मकान से होते हुए छतरसिंह के मकान तक.

पश्चिम—सुन्दर राठौर के मकान के पीछे वाली गली से धर्मेन्द्र भिलाला के मकान से होते हुए हीरूलाल के मकान से होते हुए देशी शराब की दुकान तक.

वार्ड क्रमांक 11—लालबहादुर शास्त्री वार्ड

उत्तर—बस स्टैण्ड रोड छतरसिंह के मकान के पास से जीतू चौहान के भूखण्ड तक.

दक्षिण—पंचायत कार्यालय एवं नेहरू पार्क.

पूर्व—जीतू चौहान के प्लॉट से दुर्गाप्रसाद पोस्टमेन के मकान के पीछे से होते हुए गट्टु सोनी के मकान तक.

पश्चिम—सांकला के मकान के पीछे वाले रोड, सहारा स्कूल होते हुए छतरसिंह के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 12—जवाहरलाल नेहरू वार्ड

उत्तर—कक्कु सरदार के मकान से संतोष ठाकुर के मकान तक.

दक्षिण—शिव मंदिर के पास स्थित राजेन्द्र शर्मा का मकान.

पूर्व—पुराने थाने के सामने से मुख्य मार्ग होते हुए हनुमान मंदिर से कन्या शाला होते हुए संतोष ठाकुर के मकान तक.

पश्चिम—राजेन्द्र शर्मा के मकान के पीछे वाले रोड से लगातार हरिराम माली के मकान के पीछे होकर बस स्टैण्ड स्थित कक्कु सरदार के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 13—महात्मा गांधी वार्ड

उत्तर—जीजा की आरा मशीन से शुजालपुर रोड पर दिनेश सोनी की होटल तक.

दक्षिण—शिव मंदिर से जगदीश मेवाड़ा की होटल तक.

पूर्व—स्टेशन चौराहा पंचमुखी चौराहा मुख्य मार्ग (जगदीश की होटल से दिनेश सोनी की होटल तक).

पश्चिम—पुराने थाने के पीछे से होते हुए सेंटल बैंक वाला रोड शिवपुरीया की दुकान से होते हुए बस स्टैण्ड से मुकेश वर्मा की दुकान जीजी की आरा मशीन तक.

वार्ड क्रमांक 14—डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड

उत्तर—पंचमुखी चौराहे से सीहोर रोड होते हुए अष्टविनायक वेयर हाउस तक.

दक्षिण—विष्णु वर्मा की दुकान से शमशान रोड होते हुए दरगाह तक.

पूर्व—अष्टविनायक वेयर हाउस से कालापीपल शमशान तक.

पश्चिम—विष्णु शर्मा के मकान से मुख्य मार्ग पंचमुखी चौराहा स्थित जैन की होटल तक.

वार्ड क्रमांक 15—स्वामी विवेकानंद वार्ड

उत्तर—शिवपुरीया पेट्रोल पम्प से करणसिंह भानियाखेड़ी की भूमि तक.

दक्षिण—मनोहर पंवार के मकान से सीहोर रोड होते हुए पंचमुखी चौराहा स्थित हनुमान मंदिर तक.

पूर्व—करणसिंह भानियाखेड़ी वाले की भूमि से मनोहर पंवार के मकान तक.

पश्चिम—पंचमुखी चौराहा स्थित हनुमान मंदिर से कुरावर रोड होते हुए शिवपुरिया पेट्रोल पम्प तक.

प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर.

NEWLY ORGANISED CITY COUCIL PANKHEDI (KALAPIPAL)

PROPOSED WARD DIVISION WARD EXTENTION

BOUNDRY (LIMIT)

Ward No. (1)	Name of the Ward (2)
1	MAHARANA PRATAP WARD
2	DR. AMBEDKAR WARD
3	SUBHASH CHANDRA BOSE WARD
4	SARDAR VALLABH BHAI PATEL WARD
5	RANI LAXMI BAI WARD
6	RAVINDRA NATH TAGORE WARD
7	RANI DURGA WATI WARD
8	CHANDRA SHEKHAR AZAD WARD
9	SARDAR BHAGAT SINGH WARD
10	MAULANA AZAD WARD
11	LAL BAHADUR SHASTRI WARD
12	JAWAHAR LAL NEHRU WARD
13	MAHATMA GANDHI WARD
14	DR. RAJENDRA PRASAD WARD
15	SWAMI VIVEKANAND WARD

PRAMOD GUPTA, Collector.

WARD No. 1—MAHARANA PRATAP WARD

North—Attached with Anar Bais's house crossing nala with Baba Ramdev's Paltefarm in front of Petrol Pump situated on Kunwarlal road till open land of Mr. Mukesh Garg.

South—From Gas Agency chouraha Pankhedhi Goha and behind Primary School crossing kharnaja road till the house of Badri Singh.

East—In front of Shivpuria Petrol Pump V/H land of Mukesh Garg and on Kurawar road newly built house till Gas Agency Chouraha.

West—Crossing Anar Bai's house till the house of Baohisith.

WARD No. 2—Dr. AMBEDKAR WARD

North—From the house of Mr. Narbat Singh to the house of Mr. Suraj Singh.

South—It is started from agriculture Mandi Pulia behind Mandi Committee passing Madan Singh's house to the house of Mr. Jitendra Sharma.

East—From Pankhedhi Goha to the shop of Mama near Mandi Committee road.

West—It is from Jitendra Sharma house to Sapera Colony, behind road to Pankhedhi Nala up to house of Ramesh Udai Singh Sen.

WARD No. 3—SUBHASH CHANDRA BOSE WARD

North—From Ramesh Bhagirath's house passing by Gas Agency main road from Shivaji organisation to Tehsil house ground.

South—From stamp vander Mr. Hari Prasad Shop in front of Mangilal Sharma's shop in front of the front road passing to the house of Krismal Pardi.

East—Passing Kurawar road Gas Agency to the Electricity D.P. V/H Tehsil.

West—It is from the house of Mr. Ramesh Malviya Mandi Committee Road to the house of Mr. Krismal Pardi.

WARD No. 4—SARDAR VALLABH BHAI PATEL WARD

North—It is from the house of Prem Mewada to the house of Mr. Jai Narayan Rathor.

South—It is from the house of Mr. Harish Pardi Passing Primary School Situated in front of Hanuman Temple to the Employee Colony Bus Stand main road.

East—It is from the house of Mangilal Tailor to the house of Nutan Studio Kurawar road.

West—It is from the house of Mr. Prem Mewada passing by Mandi Committee road to the house of Mr. Hanis Pardi.

WARD No. 5—RANI LAXMI BAI WARD

North—It is from Employee Colony waiting hall to the house of Mohan Black Smith (Iron Maker).

South—It begins from the nala made in Mandi Colony to the nala situated behind Sheru Chander (Iron Maker).

East—It is from Employee Colony waiting hall to the Kurawar road near the house of Ghanshyam Sharma.

West—It is from Mohan (Iron Maker) to the nala situated behind Chander Sheru's house.

WARD No. 6—RAVINDRA NATH TAGORE WARD

North—Passing by the complex of Dhan Singh Meewada to the Cowshed situated out agriculture road marg.

South—It is from the Railway Crossing gate passing by Mahua Khedi road to Hanuman Temple.

East—It is from the Complex of Dhan Singh Mewada passing by Punch Mukhi Chouraha or Shujalpur road passing Gandhi Petrol Pump to the house of Mangilal Prajapati.

West—It is from Cowshed to Hanuman Temple in Handicapped Colony.

WARD No. 7—RANI DURGA WATI WARD

North—It is from Railway Crossing Gate to the Station.

South—It is from Pasisar road J.P. Jain's house to Chhegra Colony.

East—It is from Railway Station waiting hall to the turning of Bhardi road.

West—It is from Soya Plant to the house of Jagdish Soni on Shujalpur road.

WARD No. 8—CHANDRA SHEKHAR AZAD WARD

North—The house of Heeru Lal & Suresh.

South—It is from the house of Jaiswal, Railway Dept. boundary to the house of Om Kaka.

East—From Tapra Mohalla Main road Asha Bai's house to the house of Babu Jaiswal.

West—From the house of Om Kaka Shujalpur Road to the open land behind Bai Asha's house.

WARD No. 9—SARDAR BHAGAT SINGH WARD

North—The house of Neena Khoyre.

South—It is from the house of Thabla wala Rajput to the house of Gourishankar Prajapati.

East—It is from the road behind Neena Khoyre house to Deepak Tailor's house. It is situated of the front side of Panchayat.

West—The main road of Tapra Mohalla from Neena Khoyre's house to Dhabla Wale Rajpur's house.

WARD No. 10—MAULANA AZAD WARD

North—It is from Wine Shop to the house of Chhatar Singh passing by Bus Stand.

South—In front of Nehru Park Dal Mill road from Pathariya Master to the house of Sunder Rathor.

East—It is from the road behind Pathariya Master's house passing by the house of Dileep Soni to Chhatar Singh's house.

West—for the street behind Sunder Ratore's house passing by the house of Dharmendra Bhilala passing by the house of Heerulal to the Wine Shop Deshi.

WARD No. 11—LAL BAHADUR SHASTRI WARD

North—From Bus Stand road near Chhatar Singh's house to the Piece of Land of Jeetu Chouhan.

South—Panchayat Office & Nehru Park.

East—Passing by Jeetu Chouhan's piece of Land to Durga Prasad Postman's house, behind passing Gattu Soni's house.

West—It is from behind the house of Sankhla's road to the house of Chhatar Singh.

WARD No. 12—JAWAHAR LAL NEHRU WARD

North—It is from the house of Kakku Sardar to the house of Santosh Thakur.

South—The house of Rajendra Sharma situated near Shiv Temple.

East—It is from the old Police Station main road & from Hanuman Temple to the house of Santosh Thakur passing Girl's School.

West—From the road behind the house of Rajendra Sharma to the house of Kakku Sardar continued behind the house fo Hari Ram Mali.

WARD No. 13—MAHATMA GANDHI WARD

North—It is from Jeeja's Aara Machine to the hotel of Dinesh Soni on Shujalpur road.

South—It is from Shiv Temple to the hotel of Jagdish Mewada.

East—It is from Station Chouraha to the Punch Mukhi main road (from Jagdish's hotel to Dinesh Soni's hotel).

West—From passing old Police Station to the house of Mukesh Verma's shop Jeeja's Aara Machine passing Central Bank road and Shiv Shankar's shop passing Bus Stand.

WARD No. 14—Dr. RAJENDRA PRASAD WARD

North—From Punch Mukhi Chouraha passing Sehore road to Ashtavinayak Ware House.

South—From the shop of Vishnu Sharma, passing Shamshaan Ghat to Dargah.

East—From Ashtavinayak Ware House to Kalapipal Shamshaan Ghat.

West—From Vishnu Sharma's house main road Punch Mukhi Chouraha to Jain's Hotel.

WARD No. 15—SWAMI VIVEKANAND WARD

North—From Shivpuriya Petrol Pump of Karan Singh Bhaniyakhedi's land.

South—From Manohar Pawar's house passing Sehore road Hanuman Temple situated at Punch Mukhi Chouraha.

East—From Karan Singh Bhaniyakhedi's land to the house of Manohar Pawar's house.

West—Hanuman Temple situated at Punch Mukhi Chouraha to Shivpuriya Petrol Pump passing Kurawar road.

PRAMOD GUPTA, Collector.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

खण्डवा, दिनांक 6 नवम्बर 2012

क्र. 17798-जनगणना-2012.—राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3) दिनांक 16 फरवरी 2012, (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 और सहगठित नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करना) नियमावली 2003, के नियम 5, 16 एवं 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने, उसमें संशोधन करने और "राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य" का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं. 4 में एन.पी.आर. पदनाम एवं कॉलम नं. 5 में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है :—

क्र. संख्या	प्रशासनिक इकाई	पदनाम	नियुक्त किये जाने वाला पदनाम	प्रशासनिक क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	नगर निगम, खण्डवा, जोन खण्डवा.	उपायुक्त, नगर निगम, खण्डवा.	उप जिला रजिस्ट्रार, खण्डवा, नगर निगम.	नगर निगम, खण्डवा के जोन खण्डवा के अंतर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
2	तहसील, खण्डवा	तहसीलदार, खण्डवा	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील, खण्डवा.	तहसील, खण्डवा के अंतर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
3	तहसील, पुनासा	तहसीलदार, पुनासा	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील, पुनासा.	तहसील, पुनासा के अंतर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
4	तहसील, पंधाना	तहसीलदार, पंधाना	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील, पंधाना.	तहसील, पंधाना के अंतर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
5	तहसील, हरसूद	तहसीलदार, हरसूद	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील, हरसूद.	तहसील, हरसूद के अंतर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
6	तहसील, खालवा	तहसीलदार, खालवा	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील, खालवा.	तहसील, खालवा के अंतर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
7	नगर पंचायत, पंधाना	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, पंधाना.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, पंधाना.	नगर पंचायत, पंधाना के अंतर्गत पड़ने वाले सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
8	नगर पंचायत, मूँदी	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, मूँदी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, मूँदी.	नगर पंचायत, मूँदी के अंतर्गत पड़ने वाले सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
9	नगर पंचायत, छनेरा	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, छनेरा.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, छनेरा.	नगर पंचायत, छनेरा के अंतर्गत पड़ने वाले सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
10	नगर पंचायत, ओंकारेश्वर	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, ओंकारेश्वर.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, ओंकारेश्वर.	नगर पंचायत, ओंकारेश्वर के अंतर्गत पड़ने वाले सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.

उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पड़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3) दिनांक 16 फरवरी 2012 के तहत जारी कर सकेंगे.

नीरज दुबे, कलेक्टर एवं जिला रजिस्ट्रार.